

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 फ़रवरी 2023

प्रश्न -1

जनवरी 2023 में, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़ों के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक गिर गई है?

- A) 8.30%
- B) 8.03%
- C) 7.14%
- D) 6.43%

सही उत्तर: C

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की बेरोजगारी दर जनवरी में घटकर चार महीने के निचले स्तर 7.14 प्रतिशत पर आ गई। CMIE के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के दौरान बेरोजगारी दर 8.30 प्रतिशत थी, जबकि नवंबर में यह 8 प्रतिशत और सितंबर में 6.43 प्रतिशत थी।

प्रश्न-2

IDFC लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह IDFC फर्स्ट बैंक में _____ का निवेश करेगा।

- A) 6,000 करोड़ रुपये
- B) 4,200 करोड़ रुपये
- C) 2,200 करोड़ रुपये
- D) 1,500 करोड़ रुपये

सही उत्तर: C

IDFC लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह IDFC फर्स्ट बैंक में अपनी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 2,200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। वर्तमान में IDFC बैंक में इसकी कुल हिस्सेदारी 36.38 प्रतिशत है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 फ़रवरी 2023

प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किसे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था ?

- A) इग्नासियो मिलम तांग
- B) मैनुएला रोका बोटे
- C) सिलवेस्टरे सियाले बिलेक
- D) वीसनटे हयाते टोमी

सही उत्तर: B

इक्वेटोरियल गिनी ने मैनुएला रोका बोटेको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वह इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला बनीं। श्रीमती बोटे पहले शिक्षा मंत्री थीं और 2020 में सरकार में शामिल हुई थीं।

प्रश्न-4

निम्नलिखित में से किसने "द लास्ट हीरोज- फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम" नामक पुस्तक लिखी?

- A) हर्ष मंदर
- B) पी. साईनाथ
- C) प्रणय रॉय
- D) सीताराम येचुरी

सही उत्तर: B

पी. साईनाथ ने "द लास्ट हीरोज - फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम" नामक एक पुस्तक लिखी है। पी . साईनाथ एक प्रतिष्ठित पत्रकार , विद्वान और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं। वह पीपुल्स आर्काइव्स ऑफ रूरल इंडिया (PARI) के संस्थापक-संपादक भी हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 फ़रवरी 2023

प्रश्न-5

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 'जीवन विद्या शिविर' का आयोजन कहाँ किया गया था?

- A) दिल्ली
- B) हिमाचल प्रदेश
- C) जम्मू और कश्मीर
- D) पंजाब

सही उत्तर:A

दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग(SCERT) ने त्यागराजा स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय 'जीवन विद्या शिविर' का आयोजन किया है। 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लगभग 4,000 शिक्षकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

प्रश्न-6

UNESCO ने निम्नलिखित में से किस देश के 'ओडेसा' को खतरे में विश्व धरोहर के रूप में नामित किया है?

- A) जापान
- B) रूस
- C) यूक्रेन
- D) USA

सही उत्तर: C

UNESCO ने यूक्रेन के ओडेसा के ऐतिहासिक केंद्र को खतरे में विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के अपने फैसले की घोषणा की है। पेरिस में एक बैठक में, विश्व धरोहर समिति ने सूची में शामिल करने के लिए एक "आपातकालीन प्रक्रिया" का उपयोग किया, जिससे क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के कारण प्रक्रिया में तेजी आई।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 फ़रवरी 2023

प्रश्न-7

कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज 2022 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है?

- A) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
- B) कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज
- C) मद्रास स्टॉक एक्सचेंज
- D) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज

सही उत्तर: D

फ्यूचर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन (FIA) के अनुसार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) 2022 में कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के संदर्भ में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है।

प्रश्न-8

मॉर्गन स्टेनली ने _____ को भारत के लिए अपने कंट्री हेडके रूप में नियुक्त किया है।

- A) पराग लक्ष्मीकांत
- B) अरुण कोहली
- C) अपर्णा अमोल
- D) अनिल वासुदेव

सही उत्तर: B

मॉर्गन स्टेनली ने फर्म के यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (EMEA) संचालन के लिए मुख्य परिचालन अधिकारी अरुण कोहली को भारत कंट्री हेडके रूप में नियुक्त किया है। वह संजय शाह की जगह लेंगे, जो निवेश बैंक के साथ 26 साल के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 10 फ़रवरी 2023

प्रश्न-9

अदाणी समूह ने हाइफा के रणनीतिक इजरायली बंदरगाह का कितनी राशि में अधिग्रहण किया है?

- A) 4.2 अरब डॉलर
- B) 3.2 अरब डॉलर
- C) 2 अरब डॉलर
- D) 1.2 अरब डॉलर

सही उत्तर: D

अदाणी समूह ने इजरायल के रणनीतिक बंदरगाह हाइफा का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है और तेल अवीव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला खोलने सहित यहूदी राष्ट्र में अधिक निवेश करने के अपने फैसले के तहत इस भूमध्यसागरीय शहर के क्षितिज को बदलने का संकल्प लिया है।

प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किसे प्यूमा इंडिया के ब्रांड एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) दीप्ति शर्मा
- B) हरमनप्रीत कौर
- C) राधा यादव
- D) शिखा पांडे

सही उत्तर: B

खेल ब्रांड प्यूमा इंडिया ने महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाने की घोषणा की है। साझेदारी की शर्तों के तहत हरमनप्रीत पूरे साल ब्रांड के जूते, परिधान और सामान का प्रचार करेंगी।